

ऑनलाइन क्लासेस का उपयोग करते हुए ध्यान रखने योग्य बातें

माता-पिता के लिए

क्या करें :-

- ▶ अपने बच्चे को उसी भावना से कक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करें जैसे वो नियमित कक्षा में भाग लेते हैं।
- ▶ सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे ने स्नान एवं नाश्ता करा है और वह 'डिजिटल स्कूल' के लिए तैयार है।
- ▶ बिना किसी परेशानी के बच्चे को उसकी ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए एक उचित स्थान प्रदान करें। यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चे के पास मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर और समुचित इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध हो।
- ▶ यदि आपके पास अतिरिक्त कंप्यूटर या फोन नहीं है, तो अपने फोन को अपने बच्चे के साथ साझा करें ताकि वर्तमान सत्र में उसे अपने शिक्षकों के साथ जुड़ने में मदद मिल सके एवं उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए।
- ▶ अपने बच्चे को समझाएं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, कोरोनावायरस महामारी और बुनियादी सुरक्षा उपायों के बारे में बात करें।
- ▶ सुनिश्चित करें कि जब आपके बच्चे उनके 'डिजिटल स्कूल' में भाग ले रहे हों, तो कोई परेशानी न हो।
- ▶ स्कूलों द्वारा साझा किए गए टाइम टेबल के अनुसार आपका बच्चा कक्षा में भाग ले रहा हो एवं अनुशासन बनाए रखे इस बात का ध्यान रखें।

क्या नहीं करें :-

- ▶ अपने बच्चे को ऑनलाइन कक्षाएं न छोड़ने दें, और यह सुझाव ना दें कि स्कूल के दोबारा खुलने पर सब कुछ दोहराया जाएगा। यह महत्वपूर्ण है कि आपका बच्चा अपनी क्लास पर ध्यान दे।
- ▶ ऑनलाइन कक्षाओं या स्कूलों के प्रयासों की आलोचना या मजाक न करें। कृपया याद रखें कि बच्चों के लिए, विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए, ये नाजुक समय हैं, वे स्थिति की गंभीरता को नहीं समझेंगे। ऑनलाइन कक्षाओं की आलोचना करने से आप उनके ही पढ़ाई का नुकसान करेंगे।
- ▶ फोन को व्यस्त न रखें। यह सबसे अच्छा होगा यदि आप अपने फोन को निर्धारित समय के दौरान अपने बच्चे के लिए उपलब्ध रखें एवं ध्यान रखें कि फोन साइलेंट पर ना हो।